



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1298]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 25, 2007/कार्तिक 3, 1929

No. 1298]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 25, 2007/KARTIKA 3, 1929

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2007

का.आ. 1816(अ).—जबकि भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना संख्या का.आ. 1756 (अ) दिनांक 12 अक्तूबर, 2006 द्वारा श्री पी.सी. परख, पूर्व सचिव, कोयला मंत्रालय को उन कारणों और परिस्थितियों, जिनसे 6 सितम्बर, 2006 को मैसर्स भारत कोकिंग कोल लि. की कोलियरियों, विशेषकर झारखण्ड राज्य के धनबाद जिले में भाटडी कोलियरी में हुई दुर्घटना, जिसमें कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, की औपचारिक जांच करने और तीन माह की अवधि के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया था। जांच न्यायालय का कार्यकाल 11 जनवरी, 2007 तक के लिए था।

तथापि, दिनांक 22 जून, 2007 की अधिसूचना का.आ. 1006 (अ) द्वारा उक्त जांच न्यायालय का कार्यकाल तीन माह की और अवधि अर्थात् 11 अक्तूबर, 2007 तक के लिए बढ़ाया गया था।

और जबकि जांच न्यायालय की अवधि को पुनः बढ़ाना आवश्यक हो गया है, क्योंकि अध्यक्ष, जांच न्यायालय ने माननीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को दिनांक 17 अक्तूबर, 2007 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

अतः, अब केन्द्र सरकार इस अवधि को 12 अक्तूबर, 2007 से 20 अक्तूबर, 2007 तक की और अवधि के लिए बढ़ाती है। तदनुसार, अध्यक्ष श्री पी.सी. परख तथा श्री आर. शर्मा, पूर्व-महानिदेशक, खान सुरक्षा व श्री ओ.पी. लाल, पूर्व खान मंत्री, बिहार, एवं संगठन सचिव, इंटक की मूल्यांकक के रूप में नियुक्ति की अवधि को 20 अक्तूबर, 2007 तक की और अवधि के लिए बढ़ाया जाता है।

[फा. सं. एन-12020/1/2006-आईएसएच-II]

एस.के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2007

**S.O. 1816 (E).**—Whereas the Government of India in the Ministry of Labour and Employment in their notification No. S.O. 1756(E) dated 12th October, 2006 appointed Shri P.C. Parakh, Former Secretary, Ministry of Coal to hold a formal inquiry into the causes and circumstances attending the accident that occurred on 6th September, 2006 in the collieries of M/s. Bharat Coking Coal Limited, more particularly in the Bhatdee Colliery in Dhanbad District of Jharkhand State, causing loss of lives and present a report within a period of three months. The duration of the Court of enquiry was up to 11th January, 2007.

However, vide Notification S.O. 1006 (E) dated 22nd June, 2007, the tenure of the said court of inquiry was extended for a further period of three month i.e. up to 11th October, 2007.

And whereas it has become necessary to extend the period of the Court of Inquiry, as the Chairman, Court of Inquiry submitted the report to the Hon'ble Minister of State (Independent Charges) of Labour and Employment on 17th October, 2007.

Now, therefore, the Central Government do hereby extend this duration for a further period from 12th October, 2007 to 20th October, 2007. Accordingly the period of appointment of Chairman, Shri P.C. Parakh and assessors Shri R. Sharma, Ex-Director General of Mines Safety and Shri O.P. Lal, Ex-Minister for Mines, Bihar, and Organizing Secretary, INTUC is extended for a further period up to 20th October, 2007.

[F. No. N-12020/1/2006-ISH-II]  
S.K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.